


एम. डी. की बात



प्यारे दोस्तों,

इस संवाद पत्र के हर संस्करण में आपका योगदान और सहयोग हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। आपने जो प्यार दिखाया है उसके लिए मैं प्रत्येक सहयोगी का दिल से आभारी हूँ।

सबसे पहले, मैं आप सभी को नव-वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। जबकि साल 2020 बस ज़िंदा रहने की जद्दोज़हद में ही कट गया, दुआ है कि 2021 हम सभी के लिए नई आशाएँ, नए सपने और नई ऊँचाईयाँ लेकर आए। कोविड 19 के वैक्सीन की खोज और कोविड-पीड़ितों की संख्या में गिरावट की वजह से हमें नए साल में नई उम्मीदें नज़र आ रही हैं।

जब हम कठिन समय से गुज़र रहे थे, तब हम सभी ने बहुत हिम्मत और सब्र से काम लिया और अब वक्त आ गया है उसके मीठे फल को चखने का। हम खोए हुए वक्त को तो वापस नहीं ला सकते, पर हाँ हम गुज़रे हुए वक्त की भरपाई करके अपने देश को प्रगति के पथ पर ज़रूर ले जा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को अपना-अपना 100% योगदान करना होगा।

एक और बात पर हमें उतना ही ध्यान देना है, और वह है हमारी आर्थिक स्थिति। अपनी ख्वाहिशों के बहाव में बहकर फिज़ूल-खर्ची करना बहुत आसान है। मगर यह ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच फर्क करना समझें। दरअसल, इस साल का हमारा मंज़ होना चाहिए पैसों की बचत करना। और इस मंज़ को हमें अच्छी तरह गाँठ बाँध लेना चाहिए। बचत करने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है और इसे सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है निवेश करना। आपको बचत करने की आदत डालने के लिए हमारे पास दो निवेश प्रोडक्ट हैं – उन्नति फिक्स्ड डिपॉज़िट और उन्नति रेकरिंग डिपॉज़िट। इन प्रॉडक्ट्स से आपको न सिर्फ़ नियमित तौर पर बचत और निवेश करने की आदत पड़ जाएगी, बल्कि ये आपको मार्केट में सबसे बेहतरीन रिटर्न भी कमाकर देंगे। अगर आपके पास बड़ी राशि जमा है तो आप हमारे एफ.डी. में निवेश कर सकते हैं या रेकरिंग डिपॉज़िट में नियमित तौर पर छोटी-छोटी राशि जमा कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में, जितनी मेहनत आप करते हैं, उतनी ही मेहनत आपका पैसा भी आपके लिए करेगा।

इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने परिजनों को बचत करने की अहमियत के बारे में सिखाइए और उनमें नियमित तौर पर बचत करने की आदत डालिए। इस तरह न सिर्फ़ आप भविष्य के लिए तैयार होंगे, बल्कि अपने परिजनों के लिए आप एक बढ़िया जमा-पूँजी इकट्ठा करने में भी मदद करेंगे।

जय हिंद।

उद्योग समाचार और अपडेट



सरकार ने DL, RC, और परमिट जैसे गाड़ी के दस्तावेज़ों की मुद्दत मार्च 31 तक बढ़ाई

कोविड-19 महामारी के चलते केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने रविवार को ड्रायविंग लायसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट जैसे गाड़ी के दस्तावेज़ों की मुद्दत 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी है।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



सोनालिका ट्रैक्टर ने बिजली पर चलनेवाला और खेती के लिए तैयार पहला ट्रैक्टर 'टायगर' लाँच किया

सोनालिका ट्रैक्टर ने बिजली पर चलनेवाला और खेती के लिए तैयार पहला ट्रैक्टर 'टायगर' लाँच किया है। इसे चलाने के लिए इसमें 25.5 kW की नैचुरल कूलिंग कॉम्पैक्ट बैटरी लगी है, जिसे चलाने का खर्च डीज़ल ट्रैक्टर चलाने के मुकाबले बहुत ही कम है। इसकी कीमत रु. 5.99 लाख है। (एक्स शोरूम)

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



शहरी यातायात के लिए टाटा मोटर्स न लाँच किया नया अल्ट्रा T.7 LCV

कमर्शियल गाड़ियों के मार्केट लीडर टाटा मोटर्स ने अल्ट्रा T.7 लाईट कमर्शियल वेहिकल (LCV), लाँच किया है जो खास शहरी यातायात के लिए डिज़ाइन किया गया है।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



जल्द ही पूरे भारत में सभी गाड़ियों के लिए एक-समान PUC सर्टिफिकेट

एक नई परियोजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पूरे भारत में सभी गाड़ियों के लिए एक-समान पोल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट शुरू करने की सोची है।

रिपोर्ट से पता चला है कि ये केंद्रीय PUC सर्टिफिकेट जल्द ही जारी किए जाएंगे और इसमें QR कोड लगा होगा ताकि इसमें कोई छेड़खानी ना की जा सके। इसमें ज़रूरी जानकारी भी शामिल होगी।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



भारत के ऑनलाईन खरीदारों ने कमर्शियल गाड़ियों की माँग बढ़ाई

मिनी-ट्रक, पिक-अप वैन और दूसरे लाईट कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में तेज़ी नज़र आ रही है क्योंकि महामारी के दौरान बढ़ती संख्या में भारतीय लोग ऑनलाईन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे कि लास्ट-माईल डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत भी बढ़ी है।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में खेती में मशीनों का इस्तेमाल दुगुना हो: तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खेती में मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल पर ध्यान दे रही है। सरकार ने इंडस्ट्री से कहा है कि कम ज़मीन रखनेवाले किसानों को छोटी मशीनें और औज़ार दिए जाएँ ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)



विकलांगों की गाड़ियों पर टोल नहीं लगेगा

अब से दिव्यांगजनों (विकलांग लोगों) की गाड़ियों से पूरे देश के राष्ट्रीय महामार्गों पर कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी गाड़ियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से "ज़ीरो ट्रांज़ेक्शन" या मुफ्त फास्टेज लेना होगा।

[अधिक जानकारी के लिए देखें।](#)